

Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase – 1 New Delhi – 110020. CIN: L74899DL1992PLC051527. Tel.: +91-11-26818840, 26818642, 26815558, 26815559. Fax: +91-11-26811959, 26817225. Email: info@kei-ind.com Website: www.kei-ind.com

KEI/BSE/2022-23

The Manager, BSE Limited Listing Division, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001.

Sub: Newspaper Advertisement for Corrigendum to the Notice of 30th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper clippings of Corrigendum to the Notice dated July 26, 2022 convening the 30th Annual General Meeting of the members of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 07, 2022 at 03:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")I. The Company published the advertisement in the following newspapers.

- 1. Business Standard (All editions) in English Language on 23.08.2022.
- 2. Business Standard (Delhi edition) in Hindi Language on 23.08.2022.

This is for the information of the exchange and the members.

Thanking You,

Yours truly,

For KEI INDUSTRIES LIMITED

For KEI INDUSTRIES LIMITED

(Kishore Kunal)

AVP (Corporate Finance) & Company Secretary

(KISHORE KUNAL)

AVP (Corporate Finance) & Company Segretary

CC:

The National Stock Exchange of India Ltd. Listing Division, Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 The Calcutta Stock Exchange Ltd.
The Senior Manager, Listing Division,
7, Lyons Range, Kolkata-700001

Date: 23.08.2022



Head Office: Star House, C- 5, G -Block, 3rd Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051, Ph; 022-66684583, 66685617, Email: Headoffice.AR@bankofindia.co.in

#### **SALE OF NON-PERFORMING ASSETS**

BOI Invites Expression of Interest from eligible ARCs/Banks/NBFC/FIs for the proportion sale of its NPAs. The sale shall be on "As is Where is. As is What is and Whatever there is basis" and "without recourse basis". The prospective investors (who are eligible) are equested to visit our website immediately, in section Expression of Interest column a Bank's website i.e. www.bankofindia.co.in for further details and terms & conditions. Date: 23.08.2022

**KOGTA FINANCIAL INDIA LIMITED** Registered Office: Kogta House, Azad Mohalla, Bijainagar-305624, Rajasthan, India | Email: info@kogta.in| www.kogta.in

S-1 Gopalbari, Near Ajmer Pulia, Opp. Metro Pillar No. 143, Jaipur - 302001, Rajasthan, India I Tel.: +91 141 6767067

# APPENDIX IV [See Rule 8(I)] POSSESSION NOTICE

/hereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Kogta Financial (India) Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and inforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred und section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ssued a demand notice dated **30/11/2021** calling upon the **Borrowers / Guarantor** Mortgagor- Mr. Prabhu Dayal Meena S/o Sh. Gulla Ram Meena, Mrs. Manju Meena W/o Sh. Prabhu Dayal Meena to repay the amount mentioned in the notice being is Rs.22,17,235/- (Rupees Twenty Two Lakh Seventeen thousand Two hundred Thirty Five only) as on 30/11/2021 payable with further interest and other legal charges until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice. he borrower/ mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to th oorrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possessio of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her unde

Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this **18th day of Augus** of the year 2022. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) o ection 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge o

he Kogta Financial (India) Limited for an amount of is Rs.22,17,235/- (Rupees Twenty Two Lakh Seventeen thousand Two hundred Thirty Five only) as on 30/11/2021 and DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

Aeena, situated at **Plot No. 27,** Durga Vihar Colony, Ramgarh Road, Near Chawanc Ka Mand, Jaipur (Rajasthan) -302 027. Admeasuring 125.00 Sq.Yd. **Bounded by:** East by: Plot No. 28, West by: Plot No. 26, North by: Plot No. 22, Soutl oy: Road 30 Ft.

All piece and parcel of land and building consisting of land & building, structures, erections, installations etc. in the name of Sh. Prabhu Dayal Meena S/o Sh. Gulla Ram

Place- Jaipur, Date: 18.08.2022

**Authorised Officer** Kogta Financial (India) Ltd

Ramchandpura Branch - Sarju Tower, Ramchandpura Ind. Area, Opp
Poornima University, Goner Road, Tehsil - Sanganer, Jaipur, Rajasthar
302022, 0141-2958053 Email-Ramchnadpura. Jaipur@bankofindia.co.in

E-Auction Sale notice for sale of immovable property

"APPENDIX-IV-A" [See proviso to rule 8(6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Secu

E-Auction Sale white tot Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) that the below described the immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of **Bank of India, Branch-Ramchandpura,** Jai**pur (Raj.)** Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is," and "whatever there is" for recovery of below mention account. The details of Borrowers, Secured Assets, Dues, Reserve Price, E-auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentione

Name & address of Borrower :- Mr. Devesh Dixit s/o Shri Ramendra Prasad Dixit (Borrower)(a) 80/19, Sector 8, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur (Raj.)-302033 Mrs. Anima Dixit w/o Shri Devesh Dixit (Co- Borrower) 80/19, Sector 8, Kumbha Marg

Pratap Nagar, Jaipur (Raj.)-302033 Demand notice date and Dues: - 12/04/2021; Rs. 43,22,279.02/- as on 12/04/2021 + further papilicable interest, cost, charges & other expenses etc.

Present outstanding: Rs.43,10,907.58/- as on 17/08/2022 + further applicable interes

cost, charges & other expenses etc.

Description of the immovable property with	Reserve Price	Date
Last date & time of EMD submission : 23/09/2022	upto 4:00 P.M.	
Date of property inspection : 14/09/2022; Time : 12		Р.Μ.
otatus ui russessiuii ." riiysivai russessiuii		

Description of the immovable property with known encumbrances :-	EMD Bid Increase Amount	Date & Time of E-auction
Unit/Flat No. 3105 situated at First Floor in multistoried	110. 20,7 0,000	26/09/2022
building "Unique Southern Heights – II", Block No. 3		11.00 A.M. to
constructed at Khasra No. 137, Gram- Nagariyawala,	Rs. 2.97.600/-	05.00 P.M.
Tehsil- Sanganer, Distt Jaipur (Raj.) Built-up area		(With
1265.78 Square Feets and Super Built-up area	Rs. 25.000/-	unlimited
1582.22 Square Feets with common facilities i.e. stair		extensions of
case, roof, gallery and one common car parking place		10 min.
in the name of Mrs. Anima Dixit w/o Shri Devesh Dixit;		each)
<b>Bounded by:</b> On the East by Corridor and Stair Case, On		
the West by Open,On the North by Open,On the South		
by Other Flat Encumbrances - Not known		

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender and http://ibapi.in and https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp also, prospective bidder ontact the authorized officer on Mob. No. 8120200689 Authorised Officer. Date: 22/08/2022 Place: Jaipur (Raj.)

# HI-TOCH = STEEL PIPES =

**HI-TECH PIPES LIMITED** Regd. Office: No. 505, Pearls Omaxe tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 CIN: L27202DL1985PLC019750

Email: info@hitechpipes.in, Website: www.hitechpipes.in

#### **PUBLIC NOTICE -38TH ANNUAL GENERAL MEETING** (Pursuant to MCA General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020)

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Wednesday, 28th Day of September, 2022 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"). In compliance with the General circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 General circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and General circular No. 03, 2022 dated May 05, 2022 ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1 CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/ dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") has permitted the holding of the Annual General Meeting through VC / OAVM, without the physica presence of the Members at a common venue.

Members can attend and participate in the AGM through the VC facility/OAVM only the details of which will be provided by the Company in the Notice of the Meeting Additionally, the Notice of AGM along with Integrated Annual Report of the Compan for the Financial Year 2021-22 will be available on the website of the compar (www.hitechpipes.in) and also on Stock Exchanges websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limite ('NSDL') (www.evoting.nsdl.com)

In Compliance with the aforesaid MCA and SEBI circulars, issued in view of Covid 19 pandemic situation, the requirements of Sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the members have been dispensed with. Accordingly, th Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 21-22 will be sent only through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as e-voting agency, for facilitating voting through electronic means ('remote e-voting') to enable the members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM as well as for the members who will present at the AGM through VC facility/OAVM and wish to cast their vote during AGM, through e-voting system ("e-voting"). The manner of "remote e-voting" and "e-voting" during the AGM for members holding shares in physical mode, dematerialization mode and for members who have not registered their email address will be provided in detail in the Notice of the AGM. In case you have any queries or issue regarding remote e-voting /e-voting, you may contact at e-voting@nsdl.co.in or call at 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

The Dividend for the Financial Year ended 31.03.2022 of Rs. 0.50/- per Equity Share as recommended by Board of Directors, if declared at the AGM, will be credited despatched within 30 days from of the date of AGM after deduction of Tax as per the provisions of Income Tax Act. 1961, to those members whose name appear on the Register of Members of the Company on Wednesday, 21st September, 2022 or to their mandates. In respect of the Members holding shares in dematerialized form, dividend will be credited/despatched on the basis of the details of beneficial ownership to be eceived from the depositories for this purpose.

Keeping in view the above, the members whose e-mail ID for all communication, are not registered with the Depository Participant/ RTA are hereby requested to register and update their E-mail IDs with their respective Depository Participants (members holding the shares electronically) or with Company's RTA M/s Bigshare Services Pvt Ltd (members holding shares in physical form) by following the below instruction: Send a request to Company's RTA M/s Bigshare Services Pvt. Ltd. on their ema address bssdelhi@bigshareonline.com (with the subject Line- E-mail registration for dispatch of Annual Reports for FY 21-22 of Hi-Tech Pipes Ltd.) mentioning:

a) For Registering e-mail Address Folio No.

Name of the Shareholder

scanned copy of the share certificate (front and back) Self-attested scanned copy of PAN Card

self attested scanned copy of Aadhar Card b) For Registering Bank Account Details:

Name of the Bank and Branch

Bank Account Type Bank Account Number

Place: New Delhi

Date: 22nd August, 2022

MICR/IESC Code Scan Copy of cancelled cheque leaf in support of the above

For and on behalf o

Hi-Tech Pipes Ltd. Arun Kumai Company Secretary **KEI INDUSTRIES LIMITED** 

(CIN: L74899DL1992PLC051527)

egd. Office: D-90, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
∴ +91-11-268118940, 26818642; Fax: +91-11-26811959, 26817225

E-mail id: cs@kei-ind.com; Website: www.kei-ind.com

NOTICE

Members of the Company kindly note that, the Company has issued a Corrigendum to Notice dated July 26, 2022 convening the 30th Annual General Meeting of the members of the Company scheduled to be held on Wednesday, September 07, 2022 at 03:30 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") sent to the members by email. The Corrigendum can be downloaded from the Company's website i.e. <a href="https://www.kei-ind.com">www.kei-ind.com</a> and can also be accessed from the website of Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. at <a href="www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and the National Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. at <a href="www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and the National Stock Exchange of India Ltd. at <a href="www.wseindia.com">www.bseindia.com</a> and that of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>. All other contents of the Notice of the AGM, save and except as modified or supplemented by this Corrigendum, shall remain unchanged.

All the concerned are hereby requested to read the AGM Notice alongwith the By Order of the Board For KEI Industries Limited

Kishore Kunal AVP (Corporate Finance) & Company Secretary

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI

the matter of sub-section(3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13(3) AND In the matter of TNA SOLUTIONS LLP having its registered office at C1/803, PALM GROVE HEIGHTS PARTMENT, SECTOR 52 ARDEE CITY GURGAON Haryana 122003

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi under section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of Delhi to the stat of "MAHARASHTRA"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/he objections supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Delhi, within 21(twent one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above. For and on behalf of TNA SOLUTIONS LLP

AMBUJ JAIN **DPIN - 09324128** Date: 23rd August 2022

Place: Gurugram

Wires & Cables

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 10.03.2022 calling upon the Borrowers SATISH GROVER AND PRATEEK GROVER to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.25,72,382.87 (Rupees Twenty Five Lakhs Seventy Two Thousand Three Hundred Eighty Two and Paise Eighty Seven only) against Loan Account No. HHLRHN00350215 as on **08.03.2022** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 18.08.2022.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs. 25,72,382.87 (Rupees Twenty Five Lakhs Seventy Two Thousand Three Hundred Eighty Two and Paise Eighty Seven only) as on 08.03.2022 and

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY** 

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF P. NO. A-33. FF HAVING AREA OF 83.62 SQ MTRS., WITHOUT ROOF RIGHTS, (S/G, UG, 3 STRUCTURE), KHASRA NO 161, VILLAGE BINDAPUR, SHISH RAM PARK, BLOCK-A, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059, DELHI BOUNDARIES OF PLOT:

EAST : PLOTNO.33 WEST : ROAD 20 FT NORTH: PORTION OF PLOT NO. 33 SOUTH: PORTION OF PLOT NO. 33

Date: 18.08.2022 Authorised Officer INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL NEW DELHI BENCH-VI, NEW DELHI (ORIGINAL JURISDICTION)
COMPANY APPLICATION NO. CA (CAA) 31 (ND) OF 2022 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 (18 OF 2013)

SECTIONS 230 & 232 AND IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION AND

IN THE MATTER OF

COMMITTED CONSULTANTS PVT LTD APPLICANT NO. 1/TRANSFEROR COMPANY NO. LIANA CONSULTANTS PVT LTD

APPLICANT NO. 2/TRANSFEROR COMPANY NO. SIBOCCO CONSULTANTS PVT LTD

APPLICANT NO. 3/TRANSFEROR COMPANY NO. 3 AND

COMMITTED ISPAT PVT LTD

APPLICANT NO. 4/TRANSFEREE COMPANY NOTICE CONVENING SEPARATE MEETINGS

Notice is hereby given that by the Order dated 9th June, 2022 (date of pronouncement read with Order dated 20th July, 2022, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Nev beau win Order dated 20° 300, 2022, the non ble National Company Law mountain, Nev Delhi Bench-VI, New Delhi has, inter alia, directed for convening of separate meeting of the Secured Creditors and Un-secured Creditors of Committed Ispat Pvt Ltd, through Video Conferencing with facility of remote e-voting, for the purpose of considering and if thought fit, approving, the proposed Scheme of Amalgamation of Committed Consultants Pvt Ltd, Liana Consultants Pvt Ltd and Sirocco Consultants Pvt Ltd with Committed Ispa Pvt Ltd; and other connected matters, if any.

n pursuance of the said Orders and as directed therein, further notice is hereby give hat separate meetings of the following stakeholders of Committed Ispat Pv Ltd will be held through Video Conferencing with facility of remote e-voting or Wednesday, 28th September, 2022, as per the following schedule, at which time the said

ers are requested to attend: SI.No. Meeting of Committed Ispat Pvt Ltd Time 12:30 P.M Secured Creditors Un-secured Creditors on the following: 02:30 P.M.

Both the above-mentioned meetings will be held through video conferencing in terms of the Order passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, and the releval provisions of the Companies Act, 2013, and other applicable provisions, if any.

 Copies of the Notice of the respective meetings along with the Scheme of Amalgamation, Explanatory Statement and other documents, if any, are being sent to all the Secured Creditors and Un-secured Creditors of Committed Ispat Pvt Ltd (the Transferee In case of any difficulty in e-voting or attending the meeting through Vide

Conferencing, etc., the following persons may be contacted:

Name	Contact Detail
Mr Sharwan Mangla, General Manager	011-26387281-83
Mas Services Ltd	sm@masserv.com
Mr Nitin Goel, Director	+91-9717997704
Committed Ispat Pvt Ltd	nitin.goel@cipl.ltd
Voting may be made through remote e-voting properly and time period before the meeting, as given.	

which will be available during the meeting:

Commencement of remote e-voting | Saturday, 24th September, 2022 at 9:00 A.M. IS Tuesday, 27th September, 2022 at 5:00 P.M. IST

Instructions for attending the meeting through Video Conferencing, and to vote through emote e-voting, etc., are provided in the Notice of the meeting Since the meeting is proposed to be held through Video Conferencing, option of

attending the meeting through proxy is not applicable/available.

Copies of the Scheme of Amalgamation, Explanatory Statement and other documents may be obtained free of charge, from the registered office of Committed Ispat Pvt Ltd at 405, 4" Floor, Nirmal Tower, 26, Barakhamba Road, New Delhi-110 001; e-mail id: cs@cip.ltd or from the office of its Legal Counsel-Mr Kartikeya Goel, Advocate, Ne Rajeev Goel & Associates, Advocates and Solicitors at the address given below on any working day (except Saturday) from the date of this notice till the date of meeting betwee 11.00 Å M and 4.00 P.M.

The Hon'ble Tribunal has appointed Dr V. K. Subburaj, IAS (Retd.) as the common Chairperson, Mr Vishal Ganda, Advocate as the common Alternate Chairperson and Mr Narendra Thakur, Company Secretary as the common Scrutinizer of the aforesaid meeting. The above-mentioned Scheme of Amalgamation, if approved in the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench-VI, New Delhi.

Dated this 19th day of August, 2022 Sd/-

V. K. Subburaj, IAS (Retd.) Chairperson of the meetings

Through

Kartikeya Goel, Advocat For Raieev Goel & Associates Counsel for the Applicants 785. Pocket-E. Mayur Vihar-II. Delhi Meerut Expressway/NH-9. Delhi 110 091 Mobile: 8800515597, E-Mail: rajeev391@gmail.com, Web-site: www.rgalegal.ir

APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE

Whereas.

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 08.03.2022 calling upon the Borrowers SUDHA PAL AND SURENDRA KUMAR to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.13.83.715.50 (Rupees Thirteen Lakhs Eighty Three Thousand Seven Hundred Fifteen and Paise Fifty Only) against Loan Account No. HHLDCP00229203 as on 04.03.2022 and nterest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 17.08.2022

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.13,83,715.50 (Rupees Thirteen Lakhs Eighty Three Thousand Sever Hundred Fifteen and Paise Fifty Only) as on 04.03.2022 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of

FIRST FLOOR (WITHOUT ROOF RIGHTS) IN PART OF PROPERTY BEARING NO.-RZ-D-1A/129/B, LAND MEASURING 50 SQUARE YARDS, OUT OF KHASRA NO. 692/92, 93 AND 94 SITUATED IN VILLAGE NASIRPUR, IN COLONY KNOWN AS MAHAVIR ENCLAVE, GALI NO.-05, NEW DELHI-110045 ALONGWITH ONE

Date: 17.08.2022 Authorised Office INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

> APPENDIX IV [See rule 8 (1)]

TNA SOLUTIONS LLP

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 08.03.2022 calling upon the Borrowers ARVIND KUMAR AND RITU to repay the ount mentioned in the Notice being Rs.30,65,580.60 (Rupees Thirty Lakhs Sixty Five Thousand Five Hundred Eighty and Paise Sixty Only) against Loan Account No. HHLJKS00471906 as on 04.03.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 17.08.2022.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.30,65,580.60 (Rupees Thirty Lakhs Sixty Five Thousand Five Hundred Eighty and Paise Sixty Only) as on 04.03.2022 and interest thereor

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY ENTIRE SECOND FLOOR (WITHOUT ROOF RIGHTS) OUT OF BUILT-UF

PROPERTY BEARING NO. RZ-3/4, GALI NO. 2, AREA MEASURING 85 SQUARE YARDS I.E. 71.1 SQUARE METERS, PART OF KHASRA NO.-430 & 431 SITUATED IN VILLAGE-NASIRPUR, KAILASH PURI, NEW DELHI-110045 AND WHICH IS BOUNDED AS FOLLOWS:-EAST : OTHER'S PROPERTY WEST : OTHER'S PROPERTY

NORTH: ROAD 20 FEET WIDE SOUTH: VACANT LAND

Date: 17.08.2022 Authorised Office INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Place: DELHI

> APPENDIX IV POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of DHANI LOANS AND SERVICES LIMITED (INDIABULLS CONSUMER FINANCE LIMITED) (CIN:U74899DL1994PLC062407) under the Securitisation and Reconstruction o Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise o powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interes (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 23 06 2021 calling upon the Borrower(s) JITENDRA KUMAR SHARMA PROPRIETOR OF 'K. K ENTERPRISES', JAY PRAKASH SHARMA, PANDIT HARI SHANKER SHARMA AND REKHA SHARMA to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.1,18,18,789.07 (Rupees One Crore Eighteen Lakhs Eighteen Thousand Seven Hundred Eighty Nine And Paisa Seven Only) against Loan Account No. HILAAGR00463910 as on 29.05.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount. Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 17.08.2022.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of DHANI LOANS AND SERVICES LIMITED for an amount of Rs.1,18,18,789.07 (Rupees One Crore Eighteen Lakhs Eighteen Thousand Seven Hundred Eighty Nine And Paisa Seven Only) as on 29.05.2021 and

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Asset

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

ALL THAT PROPERTY MNC NO.31/119/03, KH, NO.431/1 & 433/1 SHAMSHABAD ROAD, MAUZA UKHARRA, CANTT. WARD, AGRA- 282001 UTTAR PRADESH, WHICH IS BOUNDED AS FOLLOWS

: AS PER TITLE DEED WEST : AS PER TITLE DEED NORTH: AS PER TITLE DEED SOUTH: AS PER TITLE DEED

Date: 17.08.2022 Place: AGRA

DHANI LOANS AND SERVICES LIMITED

APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 or the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 19.04.2022 calling upon the Borrowers ARTI DIXIT AND RAMA KANT DIXIT to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.12,22,260.81 (Rupees Twelve Lakhs Twenty Two Thousand Two Hundred Sixty and Paise Eighty One Only) against Loan Account No. HHLDCP00237021 as on 12.04.2022 and interes thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

Borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 o the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 18.08.2022. The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to dea

The Borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the

with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.12,22,260.81 (Rupees Twelve Lakhs Twenty Two Thousand Two Hundred Sixty and Paise Eighty One Only) as on 12.04.2022 and interest thereon

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY** 

24, DASNA, GHAZIABAD-201302, UTTAR PRADESH

UNIT NO. 1104 HAVING SUPER AREA 585 SQUARE FEET ON 11TH FLOOR BLOCK-M. ADITYA URBAN HOMES II SITUATED IN SHAHPUR BAMHETA. NH

Date: 18.08.2022 Authorised Officer Place: GHAZIABAD INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

PUBLIC NOTICE [Under section 102 (1) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MRS. ASHA MITTAL PERSONAL GUARANTOR TO M/S HI TECH GRAIN PROCESSING PRIVATE LIMITED (CORPORATE DEBTOR)

	Relevant Particulars			
1.	Name of the Personal Guarantor	Mrs. Asha Mittal W/o Mr. Naresh Mittal		
2.	Permanent Address of Personal	97, Chander Lok Enclave, Pitampura,		
	Guarantor	Delhi-110034		
3.	Interim Moratorium commencement	01.04.2021		
	date			
4.	Date of Initiation of individual	17.08.2022		
	insolvency resolution process			
5.	Moratorium commencement date	17.08.2022		
6.	Estimated date of closure of	13.02.2023		
	insolvency resolution process			
7.	Name and registration number	CA. Sunil Kumar Kabra		
	of the insolvency professional acting	Regn. No.		
	as resolution professional	IBBI/IPA-001/IP-P01011 /2017-18/11662		
9.	Address and e-mail to be used for	CA. Sunil Kumar Kabra		
	correspondence with the resolution	301, 3rd Floor, Reegus Business Centre, Ne		
	professional	Citylight Road, Above Mercedes Benz		
		Showroom, Bharthana-Vesu, Surat-395007		
		Email: iirp.hgppl@gmail.com		
		Mobile no: +91 99099 59959;		
_		+91 74151 70637		
10.		Tuesday, 13.09.2022 before 17:00 Hours		
11.	Relevant Forms for submission of claim	https://ibbi.gov.in/home/downloads		

Notice is hereby given on behalf of Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench that the Hon'ble Bench has ordered the commencement of individual insolvency resolution process o the Hon ble Bench has ordered the commencement of individual insolvency resolution process of Mrs. Asha Mittal W/o Mr. Araesh Mittal under section 95 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 vide order dated 17.08.2022 against the C.P. (IB) No. 353/ND/2021.

The creditors of Mrs. Asha Mittal (Personal Guarantor of M/s Hi Tech Grain Processing Private Limited), are hereby called upon to submit their claims with proof on or before Tuesday, 13.09.2022, 17:00 Hours by post or by electronic means or by hand or registered post or speed

post or courier to the resolution professional at the address mentioned against entry No. 9. Submission of false or misleading claims with proof shall attract penalties or imprisonment accordance with the provision of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and any other

CA. Sunil Kumar Kabra IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01011/2017-18/11662 Date: 23.08.2022 Place: Surat Email: iirp.hgppl@gmail.con

> APPENDIX IV POSSESSION NOTICE

Sd/

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securi and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 27.11.2021 calling upon the Borrower(s) SWADHIN KUMAR PANDA AND RASMITA PANDA to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 13,65,034.31 (Rupees Thirteen Lakhs Sixty Five Thousand Thirty Four and Paise Thirty One Only) against Loan Account No. HHLRHN00312768 as on 17.11.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 17.08.2022.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.13,65,034.31 (Rupees Thirteen Lakhs Sixty Five Thousand Thirty Four and Paise Thirty One Only) as on 17.11.2021 and interest thereon. The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of

the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

UPPER GROUND FLOOR WITHOUT ROOF/TERRACE RIGHTS TOWARDS BACK SIDE OF BUILT UP PROPERTY BEARING PLOT NUMBER R7-TA-58 ADMEASURING 40 SQUARE YARDS I.E. 33.45 SQUARE METER, OUT OF KHASRA NUMBER 18/5, SITUATED IN REVENUE ESTATE VILLAGE MATIALA EXTENSION IN BLOCK-C. NOW KNOWN AS TA-BLOCK, UTTAM NAGAR. DELHI-110059 WITH PROPORTIONATE RIGHTS OF THE LAND UNDERNEATH, COMMON STAICASE, LIFT FACILITIES, ENTERANCE AND PASSAGE, INCLUDING APPURTENANT RIGHTS THERETO, WITH ALL COMMON RIGHTS OF THE BUILDING, WITH COMMON ONE TWO WHEELER PARKING SPACE AT GROUND FLOOR OF THE SAID PROPERTY AND IS BOUNDED AS UNDER: EAST : OTHER'S PROPERTY. WEST : OTHER'S PROPERTY.

SOUTH: PORTION OF PROPERTY

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Authorised Officer

NORTH: OTHER'S PROPERTY,

Date : 17 08 2022

Place: DELHI

**Bank of India** 

I	Notice is hereby given to the property mortgaged/charge Authorised Officer of Bank on 07.09.2022 for the reco	ty Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Securit e public in general and in particular to the Borrower (s) and Guara d to the Secured Creditor, the Constructive / Symbolic / Physical ; of India, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is every of dues mentioned below against the account due to the "	intor(s) the possession what is the series of the series o	nat the below de on of which has ", and "Whatev India' Secured	scribed immovable been taken by the rer there is Basis" Creditors from the
l	Borrower(s) & Guarantor(s)	. The Reserve Price & the Earnest Money Deposit has been menti	ioned aga	ainst each prope	rties.
ļ	s. Name of Borrower/	<u> </u>	<u> </u>	Reserve Price Earnest Money	Date of Demand Claim Amount as

- 1			~	Increment Bid	per Demand Notice
ı		Contact Us: Branch Manager, Branch: Rohta, Mob.: 941000			
	Mehere Enterprises Partners - Mr. Raghvendra Sharma	Residential Plot No 60 & 61, B.R Residency, Mauza Lothal, Shamshabad Road Agra, Area – 167.22 Sq mtr., Property in the name of Mrs. Munni Devi w/o Ghoore Lal Sharma, Bounded as: East- 20' wide Road, West- Plot No. 54 & 55, North- Plot No. 62, South- Plot No. 59.	mboli sessi	Rs. 7,82,000/- Rs. 78,200/- 10,000/-	06.12.2019 7,73,000/- + Intt. & Other Exp.
ı		: Branch Manager/Auth. Officer, Taj Power Grid, Agra			
	Naresh Chand S/o Sh. Chotelal & Mrs. Pushpa	All that Part & Parcel of the Property Consisting of Khasra No. 942 & 943, Mahor Nagar, Lohamandi Ward, Agra, Area- 71.08 Sq. Mtr., Property in the name of Mrs. Pushpa Devi Wo Chotelal, Bounded as: East- Road 15 ft. as per Valuation, West- Plot of Yogesh Mishra as per valuation. North- Road 15 ft. as per Valuation.	Symboli Possessi	Rs. 16,23,000/- Rs. 1,62,300/- 10,000/-	25-06-2021 ₹ 7,77,000/- + Intt. & Other Exp.

Date of E-Auction: 07-09-2022, Timing: 11:00 am to 05:00 pm &

of respective Branches at Numbers as given above. The above mentioned Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagor(s) is given notice to deposit there total Outstanding, Interest & Other expenses before the E-Auctión date. Failing which, the said property will be auctioned, and the outstanding amount if any, will be recovered along with interest and costs.

Dt. 23-08-2022 Place: Agra **Authorised Officer** 

बैंक ऑफ़ इंडिया LIC Building, Sanjay Place, Agra E-Auction Sale Notice [Appendix IV-A (Proviso to Rule 8(6)]
Sale Notice for Sale of Immovable Properties
E – Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset/s under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Devi W/o Chote Yogesh Mishra as per valuation, North- Road 15 ft. as per valuation, South- Property of Other.

Date of EMD: 06-09-2022 upto 5:00 P.M.

Terms & Conditions: For detailed and terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's the web portal of i.e.https://www.bankofindia.co.in, https://ibapi.in. For further details contact AGM / Chief Manager / Branch Manager

STATUTORY 15 / 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 6(2) & 8(6) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT), RULES 2002 This may also be treated as notice under rule 6(2) & 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the Said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date.

(for immovable property)

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to

the Act in respect of time available, to redeem the secured assets

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY** 

BIKE PARKING SPACE Sd/-

> POSSESSION NOTICE (for immovable property)

	(निगमित ऋणदाता) के व्यक्तिगत गारंटर						
	श्री नरेश मित्तल के ऋणधारकों के ध्यान देने हेतु						
	संबंधित विवरण						
1.	व्यक्तिगत गारंटर	श्री नरेश मित्तल पुत्र श्री राम बिलास मित्तल					
2.	व्यक्तिगत गारंटर का स्थायी पता	97,चंद्र लोक एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली—110034					
3.	अंतरिम ऋण स्थगन के शुरुआत की तिथि	01.04.2021					
4.	व्यक्तिगत ऋणशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया की सूचना की तिथि	17.08.2022					
5.	ऋण स्थगन के शुरुआत की तिथि	17.08.2022					
6.	ऋणशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तिथि	13.02.2023					
7.	प्रस्ताव् प्रोफेशन्ल के रूप में कार्यरत	सीए सुनील कुमार काबरा					
	ऋणुशोधन प्रोफेशनल का नाम व	Regn. No.					
	पंजीकरण संख्या	IBBI/IPA-001/IP-P01011 /2017-18/11662					
9.	प्रस्ताच प्राम्यचारा के साथ पत्राध्यवहार करने के लिए पता व ई—मेल :	301, तीसरी मंजिल, रीगस बिजनेस सेंटर, न्यू सिटीलाइट रोड, मर्सिडीज बेंज शोरूम के भारथाना—वेसू सूरत— 395007 Email: iip,hgppl@gmail.com Mobile no: +91 99099 59959; +91 74151 70637					
10.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	: मंगलवार, 13.09.2022 को 17.00 बजे से पहले					
11.	दावे जमा करने के लिए संबधित फॉर्म	https://ibbi.gov.in/home/downloads					

. एतद्वारा माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच की ओर से सूचित किया जाता है कि माननीय बेंच ने सी.पी. (आईबी) सं. 352 / एनडी / 2021 के लिए आदेश दिनांक 17.08.2022 के तहत ऋणशोधन व दिवालियापन कोड, 2016 की धारा 95 के तहत श्री नरेश मित्तल पुत्र श्री राम बिलास मिततल की व्यक्तिगत ऋणशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया की शुरुआत करने का आदेश दिया है। श्री नरेश मित्तल (भैसर्स हाई टेक ग्रेन प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर) व ऋणधारकों को एतदद्वारा मद एंट्री नं. ९ के लिए वर्णित पते पर प्रस्ताव प्रोफेशनल को डाक य इलैक्ट्रानिक माध्यमा या हाथ से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या क्रियर द्वारा मंगलवार 13.09.2022, 17.00 बजे तक या पहले प्रमाण के साथ अपने दावे जम्म करूने को कहा है। प्रमाण के साथ गलत या झठे दावे जमा करने पर ऋणशोधन व दिवालियापन कोड. 2016 और प्रमाण के साथ गलत या श्रूठ दाव जमा करन पर जब्महासाय व विकास का पात्र होगा | किसी अन्य लागू नियमों के प्रावधाना के अनुपालन में जुर्माने या कारावास का पात्र होगा | **हस्ता.** /

सीए सुनील कुमार कांबरा दिनांक: 23.08.2022 IBBI Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P01011/2017-18/11662 Email: iirp.hgppl@gmail.com

> देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **स्वाधीन कुमार पांडा और रस्मिता पांडा** को **27.11.2021**की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज** खाता नं. HHLRHN00312768 की राशि रू.13,65,034.31 (रूपये तेरह लाख पैंसठ हजार चौंतीस और इकतीस पैसे मात्र) और 17.11.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.13,65,034.31 (रूपये तेरह लाख पैंसठ हजार चौंतीस और डकतीस पैसे मात्र) 17.11.2021 के अनसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

उक्त संपत्ति के तल मंजिल पर सामान्य वन टू व्हीलर पार्किंग स्पेस के साथ, बिल्डींग के सभी सामान्य अधिकारें के साथ, इसके अतिरिक्त अधिकार सहित, भूमि के नीचे के आनुपातिक अधिकारों के साथ, सामान्य सीढ़ी, लिफ्ट सुविधाएँ, प्रवेश और मार्ग, उत्तम नगर, अब टीए-ब्लॉक से पहचाने जानेवाले ब्लॉक-सी में रेवेन्यु इस्टेट गाँव मटिआला एक्सटेंशन में स्थित खसरा नंबर 18/5 में से बिल्ट-अप संपत्ति बियरिंग प्लॉट नंबर आरझेड-टीए-58 के पीछे की ओर छत/टेरेस के अधिकार के बिना ऊपरी तल मंजिल, मापित 40 चौरस यार्डस् यानि 33.45 चौरस मीटर्स, दिल्ली-110059 और निम्ननुसार परिबध्द है:-

पूर्व : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : अन्य की संपत्ति उत्तर : अन्य की संपत्ति. दक्षिण : संपत्ति का हिस्सा

दिनांक : 17.08.2022 प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

# HI-TOCH STEEL PIPES

### हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः न0. 505, पर्ल्स ओमेक्स टॉवर, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपरा. नई दिल्ली 110034 ईमेलः info@hitechpipes.in, वेबसाइटः www.hitechpipes.in

सार्वजनिक सूचना-38वीं वार्षिक आम बैठक

(एमसीए जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के अनुसार)

एतदद्वारा स्चित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को प्रातः 11.30 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी। परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 औल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और सामान्य परिपत्र सं. 03/2022 दिनांक 5 मई 2022 (''एमसीए परिपत्र'') और भारतीय प्रतिभति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/ 2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/ 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/ 2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यो की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई है।

सदस्यगण केवल वीसी सुविघा/ओवीएम के माध्यम से एजीएम शामिल एवं भाग ले सकते हैं जिसका विवरण बैठक की सूचना में कंपनी द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सचना कंपनी की वेबसाइट (www.hitechpipes.in) और स्टॉक एक्सचें जों वेबसाइट (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होगी। कोविड—19 महामारी की स्थिति को देखते हुए उपरोक्त कथित एमसीए एवं सेवी परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक पतियां में अनुभावन ने त्तरप्या का रुपार्शन का सूचना आर पात्रकारपाट को नात्रकार प्रतियां मेंचने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 20–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई−मेल पते कंपनी ∕ डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं कंपनी ने एजीएम में पारित किये जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर अपना वोट देने के लिए सदस्यों को सक्षम बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ('रिमोट ई-बोटिंग') के द्वारा वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के साथ ही वीसी सुविधा/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम ("ई-बोटिंग") के माध्यम से अपना वोट देने के लिए ई-बोटिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। भौतिक प्रारूप, डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर घारण करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई—मेल पत पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए "रिमोट ई-वोटिंग" एवं एजीएम के दौरान "ई-वोटिंग" की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए आप voting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते या 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल दारा अनुशंसित लाभांश र 0.50 प्रति इक्विटी शेयर, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है तो उन सदस्यों को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर कटौती के बाद एजीएम की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा/िंडस्पैच किया जाएगा जिनके नाम बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 या उनके अधिदेश को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के संबंध में लाभांश इस प्रयोजन के लिए डिपॉजिटरीज से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों के विवरण के आधार पर जमा / डिस्पैच किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सदस्यगण जिनके ई-मेल पते सभी पत्राचार डिपॉजिटरी प्रतिमागी/आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं, से एतदद्वारा अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल आईडी अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (इलेक्टॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण) या कंपनी के आरटीए मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि. (भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण) निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए पंजीकृत कराएं।

कंपनी के आरटीए मैसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लि. को उनके ई–मेल पते bssdelhi@bigshareonline.com पर अनुरोध भेजें जिसमें (हाई—टेक पाइप्स लिमिटेड की वित्तीय वर्ष 21—22 की वार्षिक रिपोर्ट डिस्पैच के लिए विषय लाइन—ई—मेल पंजीकरण

क) ई-मेल पता पंजीकरण के लिए फोलियो न0

शेयरधारक का नाम

शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे)

पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति

खाता विवरण पंजीकरण के लिए बैंक एवं शाखा का नाम

बैंक खाता प्रकार

बैंक खाता संख्या

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 22 अगस्त, 2022

एमआईसीआर/आईएफएससी कोड उपरोक्त के समर्थन में कैंसल किये गये चैक की स्कैन कॉपी

कते और उनकी ओ हाई-टेक पाइप्स लिमिटेड हस्ता./-

सिक्यरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

कर्जदाता (ओं) का नाम गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण बकाया राष्ट्रि तारीख (सी) (रू.) (डी) (बी) कर्ज खाता क्र संपत्ति नं. 38A/443 का भाग, पुराना खसरा नं. (रूपये) दो करोड डकसठ HILAAGR00451525 79/2, न्यु नं.11जी, सेवला जाट, तहसील और l. नरवेश कुमार मंगल उर्फ नरवेश मंगल लाख अञ्चासी हजार पाँच प्रॉपराइटर कल्याणी उद्योग सौ इकसठ और सोलह पैसे 2. अनु रचना प्रॉपराइटर अनु रचना ट्रेडर्स मात्र) 04.08.2022 के 3.दिव्यांश मंगल अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पनर्भगतान में लगातार चक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंड

के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनयम की धारा 13(2)के अंतर्गत सचनाएं भी जारी की गई है। उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लीं) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से

60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी । कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निवदा या निजी समझैते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों. लागतों और प्रभारों के साथ संपर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है. इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सुरक्षित आस्ति को मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नही हो सकता '

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सरक्षित लेनदार की पर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है।

प्राधिकत अधिकारी कते धनी लोन्स एन्ड सर्विसेज लिमिटेड

(पहले आईवीएल फायनान्स लिमिटेड और इंडियाबुल्स कंज्यूमर फायनांस लिमिटेड से जानी जाती थी)

याचिकाकर्ता

### बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालयः सेरेब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग पांचवीं मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014 शाखा कार्यालयः चौदहवीं मंजिल, कार्यालय नं. 1451, अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, प्लॉट-ई-5, नेताजी सुभाष प्लेस, दिल्ली कब्जा सूचना

> प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4), प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8-(1) के अधीन (परिशिष्ट-IV)

चूंकि, मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (बीएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह कर्जदारों/गारंटीदाताओं को मांग सूचनाएं जारी की गई थी, जिसमें उन्हें इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया था। कर्जदारों/सह कर्जदारों/गारंटीदाताओं द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में विफल होने के कारण एतदृद्वारा कर्जदारों/सह कर्जदारों/गारंटीदाताओं एवं आम जनता को सचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8-(1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत मैसर्स बजाज हार्ज़िस फाइनैंस लिमिटेड की ओर से अधोहस्ताक्षरी ने यहां उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष तौर पर कर्जदारों/सह कर्जदारों/गारंटीदाताओं तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा यहां नीचे

अल्लाखत रकम क साथ उस पर मापष्य क ब	वाज का सारा के लिए बाएवएकएल के प्रथम प्रमार का पिष	ાવ ફાંગા !	
कर्जदारों/गारंटीदाताओं के नाम	प्रत्याभूत सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की	कब्जा की
(एलएएन नं., शाखा का नाम)	का विवरण	तारीख एवं रकम	तारीख
गाखाः नोएडा	नीचे वर्णित कृषितर सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण	24 मई, 2022	16.08.
LAN No. 582HSL92631789 तथा	हिस्साः फ्लैट नं. 1305, तेरहवीं मंजिल, टावर एयरी	रु. 57,90,126	2022
82TSH94486855)	सिक्का कामना, ग्रीन सेक्टर 143, नोएडा, उत्तर प्रदेश-	(रुपये सनतानव	
. <b>नवीन कुमार</b> (कर्जदार)	201307, पूर्व में: अन्य की सम्पत्ति (गुलशन इकेबाना	लाख नब्बे हजार	
ताः फ्लैट नं. 1201, टावर बी1, प्लॉट नं.8	सोसाइटी, पश्चिम में: प्रवेश सड़क, दक्षिण में: अन्य की	एक सौ छब्बीस	
गेलक सिटी नोग्रहा उत्तर प्रदेश-201301	यमानि (ग्लोयम जेस्ट योगारटी) उत्तर में: अना की यमानि।	मान)	

दिनांक : 23/08/2022 स्थानः दिल्ली, एनसीआर अधिकृत अधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

द्वपत्र मीनाक्षी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटे म्पनी प्रपत्र 'ए' सार्वजनिक घोषणा [भारत वाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्ति हें लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमाव ह लिए ऋण शांव अजनता सनावान प्राक्रम्या) त्यानयनायल १०१६ के विनियम ६ के अधीन] के विषय में जारी **बिज़ने** स्टैंडर्ड**—हिन्दी के १९ अगस्त, 2022 अंक** में प्रकाशि

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि असावधानीवश उक्त विज्ञापन में एक त्रुटि हुई है, जिसके फलस्वरूप नोट का पहला पेरा "एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने सीपी सं आईबी) 2527(एनडी)/2019 एवं आईए-2741/202 ह्नांकित 17-08-2022 में आदेश के माध्यम से मीनाक्ष सोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विरूद्ध कार्पोरेट ऋग गेध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है तह ग्रदेश 18–08–2022 को संसूचित किया गया है।" पद

परिशिष्ट IV

देखें नियम 8(1)

कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी

होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड

एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ

सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग

करके कर्जदार अरविंद कुमार और रितु को 08.03.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.

HHLJKS00471906 की राशि रू. 30,65,580.60 (रूपये तीस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ अस्सी और

साठ पैसे मात्र) और 04.03.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना

दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के

तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान

किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 30.65.580.60 (रूपये तीस लाख पैंसठ हजार

पाँच सौ अस्सी और साठ पैसे मात्र) 04.03.2022 के अनसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

अचल संपत्ति का विवरण

नसीरपुर गाँव में स्थित खसरा नं.-430 और 431 का हिस्सा, गली नं. 2, बिल्ट-अप संपत्ति बियरिंग नं.

आरजेड-3/4, में से संपूर्ण दूसरी मंजिल (छत के अधिकार के बिना) क्षेत्र मापित 85 चौ. यार्डस यानि 71.1 चौ.

पश्चिम : अन्य की संपत्ति

दक्षिण : रिक्त जमीन

दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

करके 17.08.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।

मीटर्स, कैलाश पुरी, नई दिल्ली -110045 और जो निम्नानुसार परिबध्द है:

हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

: अन्य की संपन्ति

उत्तर : 20 फीट चौडी सडक

दिनांक : 17.08.2022

स्थान : दिल्ली

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

केन्द्र सरकार रजिस्टार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली के समक्ष .. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियग

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13(3) और टीएनए सॉल्युशन्स एलएलपी के मामले जिसका पंजीकृत कार्यालय सी1/803, पाम ग्रोव हाइट्स अपार्टमेंट, सेक्टर 52 आर्डी सिटी गुड़गांव हरियाण 122003 में है।

आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यह एलएलपी सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को एक याचिका दायर करने का प्रस्ताव करता है जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से 'महाराष्ट्र राज्य' में स्थानान्तरित करने की अनुमित मांगी गयी है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने क संभावना है, कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास तथा याचिकाकर्ता एलएलपी को उसके पंजीकृत कार्यालय म ऊपर उल्लिखित पते पर एक प्रति के साथ एक हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति या पंजीकृत डाक द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीत भेज सकता है या भेज सकता है।

कृते एवं हिते टीएनए सॉल्यशंस एलएलपी टीएनए सॉल्युशंस एलएलर्प अंबुज जैन डीपिन - 09324128 दिनांक: 23 अगस्त 2022

Wires & Cables

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1992PLC051527) पंजी. कार्यालयः डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फंज-।, नई दिल्ली–110020 फोन: +91–11–26818840/26818642, फेर्कस: +91–11–26811959/2681722 ई–मेल आईडी: cs@kei-ind-com; वेबसाइट: www.kei-ind.com

सूचना

कंपनी के सदस्य कृपया ध्यान दें कि, कंपनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से बुधवार, 07 सितंबर, 2022 को अपराहन 03.30 बजे आयोजित होने वाली कंपनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण बैठक बुलाने के दिनांक 26 जुलाई, 2022 के नोटिस सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजे गये, के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया है। शुद्धिपत्र कंपनी की वेबसाइट यानी www.kei-ind.com से डाउनलोड किया जा सकता है और इसे स्टॉक एक्सचेंज क्रमशः बीएसई लेमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> से भी प्राप्त किया जा सकता है। एजीएम की सूचना की अन्य सभी सामग्री, इस शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित या पूरक को छोड़कर, अपरिवर्तित रहेगी।

सभी संबंधितों से एतद्वारा एजीएम नोटिस को शुद्धिपत्र के साथ पढ़ने का अनुरोध किया जाता है। बोर्ड की आजानसार

केईआई इंडस्टीज लिमिटेड के लिए

किशोर कुणाल एवीपी (कॉर्पोरेट वित्त) और कंपनी सचिव

देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत)

सही

प्राधिकृत अधिकारी

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

स्थानः गुरुग्राम

इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सुधा पाल और सुरेंद्र कुमार** को 08.03.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं.** HHLDCP00229203 की राशि रू..13,83,715.50 (रूपये तेरह लाख तिरासी हजार सात सौ पंद्रह **और पचास पैसे मात्र)** और **04.03.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सुचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 17.08.2022 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है । विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान

किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 13,83,715.50 (रूपये तेरह लाख तिरासी हजार सात सौ पंद्रह और पचास पैसे मात्र) 04.03.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने

के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

महावीर एन्क्लेव से पहचानी जाने वाली कॉलोनी में, गाँव नसीरपुर में स्थित, खसरा नं. 692/92, 93 और 94 में से संपत्ति बेयरिंग नंबर-आरजेड-डी-1ए/129/बी के हिस्से में पहली मंजिल (छत के अधिकार के बिना) जमीन माप 50 चौ. यार्डस, एक बाइक पार्किंग की जगह के साथ , गली नं. -05, नई दिल्ली -110045

दिनांक : 17 08 2022 प्राधिकत अधिकारी इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : दिल्ली

हस्ता / स्थानः नई दिल्ली

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **आरती दीक्षित और रमा कांत दीक्षित** को 19.04.2022 सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज** खाता नं. HHLDCP00237021 की राशि रू.12.22.260.81 (रूपये) बारह लाख बाईस हजार दो सौ **साठ और इक्यासी पैसे मात्र)** और 12.04.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 18.08.2022 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है । विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान

किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.12,22,260.81 (रूपये बारह लाख बाईस हजार दो सौ साठ और इक्यासी पैसे मात्र) 12.04.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

दसना, एनएच-24, शाहपुर बम्हेता में स्थित आदित्य अर्बन होम्स ॥, ब्लॉक-एम,ग्यारहवीं मंजिल पर यूनिट नं. 1104 जिसका सपर क्षेत्र 585 चौरस फीट. गाजियाबाद-201302. उत्तर प्रदेश.

सही/ दिनांक : 18.08.2022 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : गाज़ियाबाद

## एनएमडीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम) खनिज भवन, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मासाब टैंक, हैदराबाद-500 028.

संविदा विभाग निविदा पूछताछ सं.: मु.(संविदा)/बचेली कॉम्पलेक्स/फाइन्स लोडिंग/837 दिनांकः 23-08-2022

एनएमडीसी लिमिटेड इस्पात मंत्रालय. भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की एव "नवरत्न" कंपनी है जो **" बीआईओएम - बचेली कॉम्पलेक्स, जिलाः दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़** राज्य-494553 में एफओडी अथवा निक्षेप-10 फाइन्स स्टॉकपाइल/टेक प्रो अथव आईओपीपी से 10,00,000 (+/- 20%) टन लौह अयरक फाइन/रलाइम की उत्खनन लोडिंग, परिवहन तथा रूट नं. 4 लोडिंग यार्ड में अन्लोडिंग और पुनः रेलवे वागनों में लोडिंग करने के" कार्य हेतु अनुभवी घरेलू बोलीकर्ताओं से एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से

ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करती है। विस्तृत एनआईटी और बोली कागजात निम्नांकित वेबसाइट लिंकों पर 23-08-2022 र 22-09-2022 तक अवलोकन तथा / अथवा डाउन लोड किए जा सकते हैं

एनएमडीसी वेबसाइट - https://nmdcportals.nmdc.co.in/nmdctende केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल - https://www.eprocure.gov.in/epublish/app


तथा निविदा पछताछ संख्या के माध्यम से निविदा सर्च करें एमएसटीसी पोर्टल - https://www.mstcecommerce.com/eprochome

रुमएसटीसी पोर्टल पर बोली कागजातों की एक्सेंसिंग के लिए बोलीकर्ता एमएसटीसी वेबसाइट (कम्पेटबिलटी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का प्रयोग करें) पर जाएं और

निविदा सं. **एनएमडीसी/एचओ/51/22-23/ईटी/367** के माध्यम से निविदा सर्च करें । बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपर्न बोली प्रस्तुत करें। ऑनलाइन के माध्यम से बोली प्रस्तुत करने हेतु विस्तुत विवरण एनआईर्ट में दिए गए हैं। शुद्धिपत्र, भविष्य में यदि कोई हो, के लिए बोलीकर्ताओं को नियमित आधार पर एनएमडीसी के वेबसाइट / सीपीपी पोर्टल / एमएसटीसी पोर्टल देखना अपेक्षित है। अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए निम्नांकित से संपर्क किया जा सकता है

मख्य महाप्रबंधक (संविदा), एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद, फैक्स सं. 040-23534746 दूरभाष सं. 040-2353 2800, ई-मेल : contracts@nmdc.co.in

मुख्य महाप्रबंधक (संविदा)




. गजकृत काथालथ:-प्लाट न. 15,6वा तल, सेक्टर -44,इंस्टीट्यूशनल एरिया,गुडगॉव हरियाणा-122002

शाखा कार्यालयः – 4.5.6.7. पहली मंजिल ,श्री राम पैलेस, भोज मार्केट, सेक्टर-27. विनायक अस्पताल के पास, अदा, गौतम बौद्ध नगर, नोएडा -201301. उत्तर प्रदेश

अचल सम्पत्तियाँ हेतु सोकतिक कब्जे की सूचना

ा प्रतिभूति हित( प्रवर्तन )नियम 2002 के नियमों के संपठित धारा 13( 2 )तथा 13( 12 )के दारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने अंकित दिन जारी की गई थी तथा ऋणी एवं संपत्ति स्वामी / जमानतदार को उक्त सचना पापित की दिनांक से 60 दिन के अंदर राशि के भगतान हेत निर्देशित किया गया था । चंकि संपत्ती के स्वामी तथा अ राशि का भुगतान करने में चूक गए है , एतद्भदारा निम्नांकित ऋणीयों एवं सर्वसामान्यजन को सृचित किया जाता है कि प्रत्येक खाते के सामने अंकित दिनांक पर कथित नियमों के नियम 8 एवं के सपिठत उक्त अधिनियम की धारा 13( ४) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्निखित सम्पत्ति का सांकेतिक आधिपत्य प्राप्त कर लिया है ।अत. विशेष रूप से ऋणी को एवं सर्वसामान्यजन को सामान्यता सावधान किया जाता है कि संपत्तियोग के संबंध में कोई भी संव्यवहार न करें एवं संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास बंधकत्व आधार पर निम्नाकित राशि एवं व्याज . लागत आदि आधार पर होगा ।

ऋणी/जमानतदार ( सम्पत्ति का मालिक ) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित∕बंधक सम्पत्ति का विवरण ( सम्पत्ति के शामिल समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग )	एवं बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की दिनांक
रूपी झा और श्यामानंद झा लियासी: -मकान न . 69 दल्लुपुरा, एमएलए हाउस के पास दल्लुपुरा नोध्या -110096 यह भी:- फ्लैट नंबर जी एफ-2. भूतल, प्लॉट नंबर सी-1/6 और सी-1/7 पर निर्मित्त धुरिलएफ अंबरूर बिहार गाजियाबाद कम्प स्टेग 110096 क्रम्म खाता संख्या HL270000048	फ्लोर, फ्लॉट नंबर सी-1/6 और सी-1/7 पर निर्मित क्षेत्रफल 209	रू 10 20 036 86 (रूपये) तम लाख बीम	17.08.2022 सांकेतिक
निवासीः-मकान नं.8, ग्राम भंगेल बेगमपुर, जी. बी. नगर नोएडा.201301 ऋण खाता संख्या	वर्गगज i.e 141.46 वर्गमीटर दूसरी तरफ खसरा नं. 104 मिन जो अबादी ग्राम भंगेल, बेगमपुर, प्रगना एवं तहसील दादरी गौतमबुद्ध नगर पर स्थित सीमाः-पुर्वः श्री राहल त्यागी की संपत्ति, पश्चिमः श्री	रू. 45,34,764.43 ( रूपये पेंतालीस लाख चोंतीसहजार सात सौ चोंसठ और पैसे तेंयालिस )31.05.2022 तक बकाया + दिनांक 01.06.	17.08.2022 सांकेतिक
सुधा और महेण ब्रुमार निवासी: मार्चघर 83 मार्चघर फरीदाबाद 121004 हरियाणा यह भी:-खेवत/खतींनी नं.80/83 खसरा नं.142/154, खाता नंबर 84 मार्चघर फरीदाबाद 121004 हरियाणा ऋण खाता संख्या			18.08.2022 सांकेतिक
	सम्पत्ति का मालिक) का चाम एवं स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था	सम्पत्ति को मालिक ) को नाम एवं सम्पूर्ण भाग । अध्या सम्पूर्ण भाग । सम्पूर्य्ण भाग । सम्पूर्य सम	सम्पत्ति को माजिक ) को नाम एवं सम्पति के शामिल समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग ) स्विकार ग्रामिल समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग ) सम्पत्ति के शामिल समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग ) सम्पत्ति के शामिल समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग ) सम्पत्ति के शामिल समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग ) सम्पत्ति के शामिल समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग ) सम्पत्ति सभी के सभी के सभी के सभी के सभी के सम्प्रकार विकार गोन्वाका विकार गोन्वाका विकार विकार विकार विकार विकार शेष होते होता, गांव लागित के स्वाप्त के स्वाप्त के सम्प्रकार विकार गोन्वाका स्वाप्त के सम्प्रकार विकार गोन्वाका विकार गोन्वाका सम्प्रकार सम्परकार सम्परकार सम्परकार सम्परकार सम्परकार



"Insight story"

( प्राधिकत अधिकारी ) इंडिया शेल्टर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

To book your copy, call 022 4027 5432 or SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

**Business Standard** 

Insight Out

f bsindia bsindia

स्थान:- दिल्ली एवं एन.सी. आर दिनांक:-23.08.2022

www.business-standard.com